

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2021 — आश्विन 14, शक 1943

सहकारिता विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2021

## अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-27/15-2/2021/3. — छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 49—अ के उप-नियम (1) के खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(तीन) आयुक्त, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा, परन्तु उसकी पदावधि, आयुक्त के रूप में उसके पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष या 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां आवश्यक हो, राज्य सरकार, आयुक्त की पदावधि को उसके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बढ़ा सकेगी। पदावधि में वृद्धि का आदेश, एक बार में अधिकतम एक वर्ष की कालावधि के लिए किया जा सकेगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिम शिखर गुप्ता, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 6th October 2021

NOTIFICATION

No./ F 15-27/ 15-2/2021/3. – In exercise of the powers conferred by Section 95 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

For clause (iii) of sub-rule (1) of Rule 49-J, the following shall be substituted, namely :-

"(iii) The Commissioner shall hold his office during the pleasure of the State Government, provided his tenure shall not exceed beyond two years from the date of assuming his office as Commissioner or attaining the 65 years of age :

Provided further that where necessary, the state government may extend the tenure of the commissioner up to his/her attaining the 65 years of age. The order of extension of tenure shall be made for maximum period of one year at one time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
HIM SHIKHAR GUPTA, Special Secretary.